

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1965/आश्विन 3, 1887
No. 236] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1965/ASVINA 3, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th September 1965

S.O. 3036.—In the Schedule in S. No. 1 under the Col. "Length 35 mm" in this Ministry's S.O. No. 2706 dated the 27th August, 1965 appearing in the Gazette of India, Part II, Section 3. Sub-Section (ii) No. 210 dated the 31st August, 1965 for the existing entry "298" M' please read "258 M".

[No. F.24/1/65-FP App. 1021.]

G. S. GUPTA, Dy. Secy.

